



भारत का राजपत्र The Gazette of India

अतिशय

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 17, 1970/आश्विन 25, 1892

No. 176] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17, 1970/ASVINA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October 1970

G.S.R. 1796|Sugar Export.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958), the Central Government hereby fixes, in addition to quantity already fixed for export, 8,437.4 tonnes (three thousand four hundred and thirty-seven point four tonnes) of sugar as the quantity which may be exported during the period commencing on the date of publication of this notification and ending with the 31st day of December, 1970.

[No. F.1-I/70-ES.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 1970

सा० का० नि० 1796/चीनी निर्यात.—चीनी निर्यात अभिवर्धन अधिनियम, 1958 (1958 का 30) की धारा 4, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पहले ही निर्यात के लिए नियत मात्रा के अतिरिक्त 3,437.4 मीटरी टन (तीन हजार चार सौ सैंतीस पाइंट चार मीटरी टन) चीनी को उस मात्रा के रूप में नियत करती है जो इस आदेश के प्रकाशन की तारीख को आरंभ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान निर्यात की जा सकती है।

[स० एफ० 1-1/70-इ०एस०]

र० स० तलवाड़, संयुक्त सचिव।